



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 श्रावण 1932 (श०)
(सं० पटना 520) पटना, सोमवार, 2 अगस्त 2010

मुख्य अभियंता-2 भागलपुर (मुख्यालय पटना)

ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश

28 जुलाई 2010

सं० 928—जल सं०वि० बिहार, पटना का ज्ञापांक 124/सी०, दिनांक 04 फरवरी 2002, पत्रांक 1337 दिनांक 21 मार्च 2007 पत्रांक 1117, दिनांक 7 मई 2005 एवं पत्रांक 2360, दिनांक 24 दिसम्बर 2008 के आलोक में का०अ०ग्रा० कार्य वि०-कार्य प्रमंडल-2 किशनगंज का पत्रांक 277, दिनांक 01 अगस्त 2008 एवं जिला स्थापना उप-समाहर्ता समाहरणालय किशनगंज का पत्रांक 333, दिनांक 09 सितम्बर 2009 द्वारा स्व० ओम प्रकाश भगत प्राथमिक शिक्षक, प्रखंड विकास खुटामनी, ठाकुरगंज (जिला-शिक्षा अधीक्षक किशनगंज) के पुत्र श्री सोनु कुमार को अनुकम्पा के आधार पर वर्ग तीन के पद पर नियुक्त करने की अनुशंसा है। श्री कुमार को निम्नवर्गीय लिपिक (प०लि०) के पद पर (पुराना वेतनमान रु० 3050-4590) नया वेतनमान-पी०वी०-I (रु० 5200-20200) ग्रेड-पे 1900 में एवं समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते सहित नियुक्त किया जाता है। श्री कुमार को आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान ग्रा० कार्य वि० कार्य प्र०-2 पूर्णियों में वर्ग-तीन के रिक्त पद के विरुद्ध देंगे। पत्र निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर हर हालत में अपना योगदान दे देंगे। अन्यथा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।

2. स्व० ओम प्रकाश भगत के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का दायित्व श्री कुमार पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूर्ण तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जाएगा जिसके विरुद्ध नियमता समुचित कार्रवाई की जायेगी उसके अलावा उत्तरदायित्व की अवहेलना होने की संपुष्टि होने पर उनकी उपलब्धियों का एक अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है।

3. इनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। संबंधित वरीयता के लिए उनकी मान्यता नहीं दी जायेगी।
4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र हर हालत में देना होगा।
5. अगर श्री कुमार की नियुक्ति आरक्षित कोटा के रोस्टर विन्दू पर हुई हो तो उसे अग्रणित कर दिया जाय।
6. नियुक्ति पद पर योगदान करते समय शैक्षणिक योग्यता, स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र वास्तविक जन्म-तिथि से संबंधित प्रमाण-पत्र एवं आश्रितों से संबंधित शपथ-पत्रों मूल रूप में संबंधित पदा0 के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इसकी जाँच एवं समीक्षा संबंधित पदाधिकारी द्वारा कर लेने के पश्चात् योगदान स्वीकार किया जायेगा, जिसकी सूचना इस कार्यालय को देंगे।
7. योगदान करने हेतु किसी प्रकार की यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
8. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने एवं नियुक्ति पद पर योगदान करने हेतु किसी प्रकार का धोखाधड़ी या गलत सूचना के आधार पर नियुक्ति कर लेने पर भी उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा अन्य समुचित कार्रवाई की जायेगी।
9. उन्हें सरकार/विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्य में निश्चित रूप से भाग लेना होगा तथा उसके लिए किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
10. उन्हें छः माह के अन्दर टंकण कम्प्यूटर का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
11. शादी ब्याह के अवसर पर किसी प्रकार का दहेज न लेने न देने के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
12. उप-सचिव, वित्त विभाग, बिहार पटना का प0 सं0 1964 दिनांक 31 अगस्त 2005 के अनुसार दिनांक 01 सितम्बर 2005 एवं उसके बाद नियुक्ति कर्मियों को अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

आदेश से,
लाला रजक,
मुख्य अभियंता।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 520-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>